

वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
नवम्बर, 2022 माह हेतु डीपीई के संबंध में मासिक उपलब्धियां

1. कैपेक्स लक्ष्य:

नवम्बर, 2022 माह तक के चुनिंदा सीपीएसईज़ (100 करोड़ रूपए और उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य के साथ) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में 6.62 लाख करोड़ रुपये (बजट प्राक्कलन) के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और उसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 6.62 लाख करोड़ रुपये (लगभग) के अनुमानित व्यय की तुलना में, उपलब्धि 3.97 लाख करोड़ रुपये (लगभग) अर्थात् दिनांक 30.11.2022 तक लगभग 59.94% है।

2. सीपीएसईज़ का संचालन:

- i. डीपीई ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत खाद्य एवं पोषण बोर्ड के 82 तकनीकी पदों को 3 वर्ष की अवधि के लिए तत्काल समावेश के नियम से छूट देने पर सहमति व्यक्त की ताकि भारतीय खाद्य निगम में उनकी तैनाती को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- ii. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ईडी (ई-9 स्तर) [अर्थात् ईडी (एचआर) और ईडी (वित्त)] के दो पदों और जीएम (ई-8 स्तर) [अर्थात् जीएम (एचआर) और जीएम (एम एंड सी)] के दो पदों को तत्काल समावेश के नियम से छूट दी गई थी।
- iii. ओएनजीसी लिमिटेड में निदेशक (अपतटीय) और निदेशक (तटवर्ती) के पद के विलय और निदेशक (कार्यनीति एवं कारपोरेट कार्य) के पद के सृजन के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव पर लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के परामर्श से विचार किया गया और इस पर सहमति व्यक्त की गई।
- iv. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अनुसूची 'ग' से 'बी' में पुनः वर्गीकृत करने के प्रस्ताव पर डीपीई में विचार किया गया और इसे पीईएसबी को अग्रेषित किया गया।

3. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट्स:

- i. माह के दौरान सीजीडी/आईएमजी/सीएमसीडीसी की चार बैठकें आयोजित की गईं।
- ii. डीपीई ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित निम्नलिखित नोटों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं:
 - क. 'देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करने' पर कैबिनेट के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा परिचालित मसौदा कैबिनेट नोट;
 - ख. भारत को सहायक प्रौद्योगिकियों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा परिचालित राष्ट्रीय रणनीतिक ढांचे का मसौदा;
 - ग. वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए संशोधित विदेशी संवर्धन और प्रचार योजना पर व्यय विभाग द्वारा परिचालित ईएफसी ज्ञापन;
 - घ. बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य बीज सहकारी समिति, जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समिति और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति की स्थापना पर सहकारिता मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के लिए तीन मसौदा नोट परिचालित किए गए;

ड. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा व्यापार करने में आसानी और जीवन यापन में आसानी (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2022 पेश करने के लिए मसौदा कैबिनेट नोट परिचालित किया गया।

- iii. डीपीई ने भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के तीसरे चरण और एसओई पर अध्याय के संबंध में भारत-यूके एफटीए वार्ताओं पर अंतर-सत्रीय वार्ता में भाग लिया।
- iv. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, अनुपालन की कमी, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमों को कम करने के संबंध में विभिन्न सीपीएसईज़ से सुझाव प्राप्त किए गए थे और राजस्व विभाग को प्रस्तुत किए गए थे।

4. कार्यान्वित किए गए इवेंट और गतिविधियाँ:

- i. *आजादी का अमृत महोत्सव* के तत्वावधान में '*हर घर ध्यान*' अभियान के संबंध में संस्कृति मंत्रालय के निर्देशों को सभी सीपीएसईज़ को सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया।
- ii. भारत की अध्यक्षता के दौरान जी-20 लोगो और थीम के व्यापक उपयोग और मुख्यधारा में लाने के लिए कैबिनेट सचिव और विदेश मंत्रालय के निर्देश सभी सीपीएसईज़ को सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किए गए थे।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:

डीपीई ने महीने के दौरान 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 5 कार्यशालाएं आयोजित कीं, जिसमें सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के 472 कार्यपालकों ने भाग लिया।

6. जीईएम और एमएसएमईज़ के माध्यम से खरीद से संबंधित मामले:

सभी सीपीएसईज़ से अनुरोध किया गया था कि वे एमएसएमई संबंध और एमएसएमई समाधान पोर्टल पर नियमित रूप से जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करें। सीपीएसईज़ ने सूचित किया है कि वे नियमित रूप से पोर्टलों पर सूचना अपलोड कर रहे हैं। एमएसएमई संबंध पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सीपीएसईज़ ने वर्ष 2022-23 के दौरान एमएसई से 35.76% की खरीद की है, जबकि अनिवार्य 25% है।

7. मिशन भर्ती:

सीपीएसई में '*मिशन भर्ती*' के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, दिनांक 4 नवंबर, 2022 को सीपीएसईज़ के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अक्टूबर, 2022 और नवंबर, 2022 के महीने के लिए पीएसयू की प्रगति क्रमशः 14,911 और 13,584 थी।
